

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
जन्म रिपोर्ट
विधिक सूचनार्थ
यह भाग जन्म पंजिका में जुड़ेगा

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
जन्म रिपोर्ट
विधिक सूचनार्थ
इस भाग को विधि भाग से अलग कर सांख्यिकी, प्रयोजनार्थ भेजा जायेगा

सूचना देने वाले द्वारा भरा जायेगा	सूचना देने वाले द्वारा भरा जायेगा	सूचना देने वाले द्वारा भरा जायेगा
<p>1. जन्म का दिनांक (सही दिवस, मास व वर्ष लिखें)</p> <p>2. लिंग : (पूर्ण महिला/पुरुष अंकित करें)</p> <p>3. नवजात शिशु का नाम : (यदि कोई हो)</p> <p>4. पिता का नाम :</p> <p>5. माता का नाम :</p> <p>6. माता/पिता का स्थाई पता :</p> <p>7. जन्म का स्थान (सही निशान लगायें)</p> <p>1. अस्पताल /संस्था नाम :</p> <p>2. घर : पता</p> <p>3. अन्य स्थान :</p> <p>8. जन्म के समय माता/पिता का पता :</p> <p>9. सूचना देने वाले का नाम :</p> <p>पता</p> <p>दिनांक सूचना देने वाले के हस्ताक्षर</p>	<p>10. ग्राम या शहर का नाम जहाँ माता का निवास हो:</p> <p>(क) नाम/शहर ग्राम :</p> <p>(ख) क्या शहर अथवा ग्राम है (सही का निशान लगायें)</p> <p>1. शहर 2. ग्राम :</p> <p>(ग) जनपद का नाम :</p> <p>(घ) प्रदेश का नाम :</p> <p>11. परिवार का धर्म (सही का निशान लगायें)</p> <p>1. हिन्दू 2. ईसाई 3. मुसलमान 4. सिक्ख 5. अन्य</p> <p>12. पिता का शैक्षिक स्तर : (कहाँ तक शिक्षा पाई है)</p> <p>13. माता का शैक्षिक स्तर : (कहाँ तक शिक्षा पाई है)</p> <p>14. पिता का व्यवसाय : (यदि कोई अथवा शून्य लिखें)</p> <p>15. माता का व्यवसाय : (यदि कोई हो अथवा शून्य लिखें)</p>	<p>16. माता के विवाह के समय आयु :</p> <p>17. इस सन्तान के जन्म के समय आयु पूर्ण वर्षों में :</p> <p>18. माता की इस सन्तान को मिलाकर जीवित सन्तानों की संख्या लिखें:</p> <p>19. प्रसव किस तत्वाधान में सम्पन्न हुआ : (सही का निशान लगायें)</p> <p>1. संस्थागत-सरकारी</p> <p>2. संस्थागत-निजी/गैर सरकारी</p> <p>3. चिकित्सक/नर्स या प्रशिक्षित मिडवाइफ द्वारा</p> <p>4. परम्परागत प्रसव परिचारिका द्वारा</p> <p>5. रिश्तेदार या अन्य</p> <p>20. प्रसव प्रक्रिया (सही का निशान लगायें)</p> <p>1. स्वाभाविक</p> <p>2. सीजेरियन</p> <p>3. अन्य</p> <p>21. जन्म का वजन यदि ज्ञात हो (कि०ग्र०).....</p> <p>..</p> <p>22. गर्भधारण का समय (हफ्तों में)</p>

निबन्धक द्वारा भरा जाना है	निबन्धक द्वारा भरा जाना है	पंजीकरण संख्या दिनांक
<p>पंजीकरण संख्या पंजीकरण का दिनांक</p> <p>पंजीकरण ईकाई :</p> <p>शहर/ग्राम का नाम : जनपद :</p> <p>निबन्धक के हस्ताक्षर</p>	<p>नाम : कोड</p> <p>जनपद :</p> <p>तहसील :</p> <p>शहर/गाँव</p> <p>पंजीकरण ईकाई का नाम :</p>	<p>जन्म की तिथि</p> <p>आयु: (वर्ष/माह/दिन/घण्टे)</p> <p>लिंग : (पुरुष/महिला)</p> <p>जन्म का स्थान :</p> <p>4. अस्पताल/संस्था</p> <p>5. घर</p> <p>6. अन्य स्थान</p> <p>निबन्धक के हस्ताक्षर</p>